

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2019—भाद्र 22, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. A-2749.—

Jabalpur, the 4th September 2019

“CORRIGENDUM”

In the notification No. A-2633, Jabalpur, dated 21st August, 2019, which was published in the Part 4 (c) of M. P. Rajpatra No. 35, Bhopal, dated 30-08-2019 as “The Madhya Pradesh High Court Technical Manpower (Appointment & Conditions of Service) Rules, 2019”.

1. At page No. 915, at serial No. (2) of Rule 3, in column No. 02 “categories”, between the words “now re-designated as” and “Programmer Assistant” the words “Senior” shall be read as “Senior Computer” .

RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2019

क्रमांक आर-440/सीसी/2017/अड़तीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2007 की धारा 27 (1) के अनुक्रम में स्वामी विवेकानंद निजी विश्वविद्यालय, सागर के पश्चातवर्ती परिनियम क्र. 38 राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार अधिनियम, 2007 की धारा 35 अनुसार प्रकाशित किया जाता है. संस्था के उक्त परिनियम प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

संशोधन परिनियम क्र. 15

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरन सिंह भलावी, अवर सचिव.

STATUTE NUMBER 38

APPOINTMENT, TERMS AND CONDITIONS AND POWERS OF THE PRO CHANCELLOR

Statute Number 38 shall be added after statute number 37 as follows
Appointment, terms & conditions and powers of the Pro Chancellor

- (1) In accordance with the statute the Pro Chancellor shall be appointed by the Chancellor. The Secretary/President of the Sponsoring Body shall send the name, along with Bio-data of the proposed Pro Chancellor, to the Chancellor for approval. After Chancellors approval Registrar/shall be notify the same.
- (2) The Pro Chancellor shall exercise powers as delegated by the chancellor such as preside over the meeting of the Governing Body and shall, when the chancellor is not present, preside over convocation of the University for conferring degrees. Diplomas or other academic distinctions but not those as specified in the Act as powers of the Chancellor.
- (3) The Pro Chancellor shall hold office for a period of four years and shall be eligible for reappointment with the approval of chancellor following the procedures laid down above under clause (1) of this statute.
Provided that the Pro Chancellor shall notwithstanding the expiring his term, continue to hold his office until either he is reappointed or his successor enter upon his office.
- (4) In case of an emergency situation like illness, absence or death of the Chancellor, the Pro Chancellor shall perform his duties till the duly approved Chancellor reassumes his office or the new Chancellor is appointed. However, this period will not exceed six months.

- (5) The Pro Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University as delegated by chancellor and ensure that the Act Rules statutes, ordinance and Regulations are faithfully observed by the university. He/She can call information/record and direct any officer of the university to reconsider his/her decisions. The Pro Chancellor's decision shall be final for the university for all Administration, Academic matter and any other matters therewith.
- (6) The Pro Chancellor shall be entitled to receive honorarium, expenses and allowances as may be decided by the chancellor subject to the approval by Governing Body.
- (7) The Pro Chancellor may be writing under his hand addressed to the chancellor, resign his office. Chancellor shall accept his resignation and approved new name as per clause (1) of this statute.
- 8) The Chancellor can remove Pro Chancellor from his/her post if he/she is found working against the interest of the university.